



413486800


© 2017 Seiko Epson Corporation.
Printed in XXXXXX**Read This First / पहले यह पढ़ें**

This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

इस प्रिंटर में इंक के सावधानीपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता है। जब इंक टैंक भरें हों या रिफिल किए जा रहे हों, तो इंक की छींटें फैल सकती हैं। अगर इंक आपके कपड़ों या सामान पर गिर जाती है, तो साफ नहीं हो सकती हैं।

Important; must be observed to avoid damage to your equipment.
विशेष; अपने उपकरण की सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए।

1




Contents may vary by location.

स्थान के आधार पर वस्तुएं अलग हो सकती हैं।

- Do not open the ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability.
- Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are guaranteed, and they can be used safely.
- जब तक आप टैंक में इंक भरने के लिए तैयार न हों, तब तक इंक बोतल के पैकेज को न खोलें। बेहतर गुणवत्ता के लिए इंक बोतल वैक्यूम पैक होती है।
- अगर कुछ इंक बोतलें पिचकी हुई भी हों, तब भी इंक की गुणवत्ता और मात्रा विश्वसनीय है, और उनका सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

2



Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
USB केबल को तब तक न जोड़ें, जब तक ऐसा करने का निर्देश ना मिले।

Windows (No CD/DVD drive) Mac

Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.

सेटअप प्रक्रिया आरंभ करने, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क सेटिंग कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट देखें।

Windows with CD/DVD drive

You can also use attached CD to start the setup process, install software, and configure network.

आप सेटअप प्रक्रिया आरंभ करने, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए संलग्न CD का प्रयोग भी कर सकते हैं।

- If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications. अगर फॉयरवाल चेतावनी दिखती है, तो Epson एप्लीकेशनों को पहुंच की अनुमति दें।

iOS / Android

Visit the website to install Epson iPrint application, start the setup process, and configure network settings.


Epson iPrint एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने, सेटअप प्रक्रिया को शुरू करने, और नेटवर्क सेटिंग्स को संपादित करने के लिए वेबसाइट पर जाएं।

No PC

Proceed to the next step (Section 3).

अगले चरण की ओर बढ़ें (खंड 3)।


3



Remove all protective materials.
सभी सुरक्षा आवरणों को निकाल दें।



Unhook and lay down.
अनहुक करें और नीचे रख दें।



Do not pull the tubes.
ट्यूबों को न खींचें।




Open and remove.
खोलें और बाहर निकालें।

- Use the ink bottles that came with your printer.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- अपने प्रिंटर के साथ प्राप्त हुए इंक बोतलों का प्रयोग करें।
- Epson नकली इंक के प्रयोग की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता है। नकली इंक के प्रयोग से होने वाला नुकसान Epson की वारंटियों के तहत नहीं आता है।




Snap off the top of the cap or remove the cap cover.
कैप के ऊपरी भाग स्नैप करें या कैप का कवर निकालें।

Design of ink bottles varies depending on the production date and the location of purchase.
इंक की बोतलों का डिजाइन उत्पादन की दिनांक और खरीद के स्थान पर निर्भर करता है।



Remove the cap of the ink bottle, remove the seal from the bottle, and then install the cap.
इंक की बोतल की कैप निकालें, बोतल की सील निकालें और फिर कैप को स्थापित करें।



Match the ink color with the tank, and then fill with all of the ink.
इंक के रंग को टैंक के रंग से मिलाएं, और उसके बाद पूरी इंक भर दें।



Install.
इंस्टॉल करें।



Close securely.
सुरक्षित रूप से बंद कर दें।

Repeat steps 5 to 7 for each ink bottle.
इंक की प्रत्येक बोतल के लिए 5 से 7 चरण दोहराएं।




Close.
बंद करें।




Hook onto the printer.
प्रिंटर को हुक करें।




Connect and plug in.
जोड़ें और प्लग लगाएं।



Turn on the printer and wait until the light stops flashing.
प्रिंटर को चालू करें और जब तक लैंप का चमकना बंद नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें।




Press **for 3 seconds** until the light starts flashing. Ink charging starts.
जब तक कि लैंप चमकना शुरू न हो जाए **3 सेकंड** के लिए दबाएं। इंक चार्जिंग आरंभ।




Charging ink takes about 20 minutes. Wait until the light turns on.
इंक चार्ज करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। लाइट जलने तक इंतजार करें।

Make sure to hook the tank unit before printing. Do not lay the unit down, or position it higher or lower than the printer.
प्रिंटिंग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टैंक ठीक से बंद है। यूनिट को फेलाएं नहीं, या उसे प्रिंटर से ऊपर या नीचे न रखें।

**Epson Connect**


Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.
अपने मोबाइल यंत्र का प्रयोग करते हुए आप दुनिया के किसी स्थान से अपने Epson Connect समर्थ प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।

Basic Operations / मूल परिचालन**Guide to Control Panel / कंट्रोल पैनल की मार्गदर्शिका**


- Turns the printer on or off.
प्रिंटर को ऑन या ऑफ करता है।
- Wi-Fi
Clears a network error.
Hold down for 3 seconds or more to make network settings using the WPS push button.
इससे नेटवर्क त्रुटि ठीक होगी।
WPS पुश बटन का प्रयोग करके नेटवर्क सेटिंग बनाने के लिए 3 सेकंड या अधिक समय के लिए दबाएं।
- Prints a network connection report to determine the causes of any network problems. To get more information, hold this button down for more than 10 seconds to print a network status sheet.
किसी नेटवर्क समस्या के कारण का निर्धारण करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन रिपोर्ट प्रिंट करता है। अधिक जानकारी के लिए, इस बटन को 10 सेकंड से अधिक समय तक दबाएं, जिससे नेटवर्क स्थिति शीट प्रिंट हो सके।
- Starts monochrome or color copy.
Press both buttons simultaneously to scan your original and save it as PDF on your PC.
इससे मोनोक्रोम या रंगीन कॉपी आरंभ होती है। अपने मूल दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए दोनों बटन को एक साथ दबाएं और उसे अपने PC पर PDF के रूप में सहेजें।
- Stops the current operation.
वर्तमान परिचालन को रोकें।

Loading Paper / पेपर लोड करना


Do not load paper above the mark inside the edge guide.
एज गाइड के अंदर चिह्न से ऊपर पेपर लोड न करें।




Open and slide out.
खोलें और बाहर निकालें।



Slide the edge guide to the left.
छोर-प्रदर्शक को बाईं ओर खिसकाएं।




Load paper with the printable side face-up.
पेपर को प्रिंट वाले भाग ऊपर रखते हुए लोड करें।



Slide the edge guide against the paper, then close the feeder guard.
छोर-प्रदर्शक को पेपर के सापेक्ष खिसकाएं, उसके बाद फीडर गाइड को बंद करें।




Slide out.
बाहर निकालें।

Copying / कॉपी करना

Open the document cover and place your original face-down on the scanner glass. Align the original with the front right corner of the glass.
डाक्यूमेंट कवर को हटाएं और अपने मूल-पत्र को स्कैनर ग्लास की तरफ रखें। मूल-पत्र को ग्लास के सामने दाएं कोने से समायोजित करें।



Close the document cover.
डाक्यूमेंट कवर को बंद कर दें।




Press the **copy** button to start copying.
कॉपी करना प्रारंभ करने के लिए **कॉपी** बटन दबाएं।

- You can make up to 20 copies by pressing the **copy** button the same number of times as the number of copies you want to make.
- Press the **copy** and the **copy** buttons simultaneously to copy in draft mode.
- आप जितनी कॉपी बनाना चाहते हैं उतनी बार **कॉपी** या **कॉपी** बटन को दबाकर आप अधिकतम 20 कॉपी बना सकते हैं।
- ड्राफ्ट मोड में कॉपी करने के लिए **कॉपी** और **कॉपी** बटन को एक साथ दबाएं।

Print Quality Help / प्रिंट गुणवत्ता सहायता



If you see missing segments or broken lines in your printouts, try the following solutions.
अगर आपके प्रिंटआउट्स में कुछ छूट गया या टूटी हुई लाइनें दिखें, तो निम्न उपायों को अपनाएं।



Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. Turn off the printer, and then turn it back on while holding down **⓪** and **Ⓛ**. If you notice any missing segments or broken lines as shown in (b), go to step **2**.
प्रिंट हेड की नलिकाएं जाम हैं या नहीं यह जांचने के लिए नोजल चेक पैटर्न मुद्रित करें। प्रिंटर को बंद करें, और फिर **⓪** और **Ⓛ** को दबाए हुए इसे वापस शुरू करें। यदि आप (b) में दिखाए गए किसी भी लापता सेगमेंट या टूटी हुई लाइनों को देखते हैं, तो चरण **2** पर जाएं।




Run print head cleaning until all lines are printed completely. Hold down **⓪** for 3 seconds until the power light starts flashing. Print head cleaning starts.
जब तक सभी लाइनें पूरी तरह प्रिंट न हो जाएं, प्रिंट हेड क्लीनिंग चलाएं। जब तक पावर की लाइट चमकने न लगे तब तक **⓪** को 3 सेकंड तक दबाए रखें। प्रिंट हेड क्लीनिंग आरंभ हो जाती है।




Cleaning uses some ink from all tanks, so only run cleaning if print quality declines.
साफाई में सभी टैंकों से थोड़े इंक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्लीनिंग केवल तभी चलाएं, जब प्रिंट की गुणवत्ता कम हो।

Cleaning Paper Jam / पेपर जाम साफ़ करना




Open.
खोलें।

1 Load paper correctly, and then press the **⓪** or **Ⓛ** button. पेपर सही तरीके से लोड करें और उसके बाद **⓪** या **Ⓛ** बटन को दबाएं।




Remove all of the paper inside, including any torn pieces.
पेपर के फटे टुकड़े से लेकर अंदर मौजूद सभी पेपर को निकालें।

2 Do not touch the white flat cable, translucent part, and ink tubes inside the printer. Doing so may cause a malfunction.
प्रिंटर के अंदर सफेद चौड़े तार, आवरण वाले भाग और इंक ट्यूबों को न छुएं। ऐसा करने से समस्या हो सकती है।




3 Close.
बंद करें।



4 If paper still remains near the rear paper feed, gently pull it out. अगर पेपर रीयर पेपर फीड के समीप है, धीरे से इसे बाहर निकालें।


4 Load paper correctly, and then press the **⓪** or **Ⓛ** button. पेपर सही तरीके से लोड करें और उसके बाद **⓪** या **Ⓛ** बटन को दबाएं।

Checking Ink Levels and Refilling Ink इंक स्तर की जांच करना और इंक भरना




Visually check the ink levels of all ink tanks. If the ink level is below the lower line on the tanks, go to step **2** to refill the tanks.
इंक टैंकों में इंक स्तर को स्वयं से देखें। यदि इंक का स्तर टैंकों पर निचली रेखा से नीचे है, तो टैंक को फिर से भरने के लिए चरण **2** पर जाएं।

1 Continuing to use the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer. Make sure you visually check the ink levels.
निचली रेखा से भी नीचे के इंक स्तर पर प्रिंटर का प्रयोग इसे खराब कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपने इंक स्तरों को अपनी आंखों से देखा है।



Refer to steps **2** to **4** in section 3 of the front page to refill the tanks to the upper line.
टैंक को ऊपरी रेखा तक फिर से भरने के लिए सामने वाले पृष्ठ के खंड 3 में चरण **2** से **4** तक देखें।

1 If any ink remains in the ink bottle after filling the ink tank up to the upper line, install the cap securely and store the ink bottle upright for later use.
अगर किसी इंक बोतल में टैंक की ऊपरी रेखा तक इंक भरने के बाद भी इंक बच रही हो, तो बोतल के कैप को कसकर बंद करें और इंक बोतल खड़ी अवस्था में अगले प्रयोग के लिए सुरक्षित रख लें।



Error Indicators / त्रुटि संकेतक



If the product stops working and the lights are on or flashing, use the following table to diagnose and solve the problem. For more details, see the *User's Guide*.
अगर उत्पाद कार्य न कर रहा हो और लाइट जल रही हों या चमक रही हों, तो निम्न तालिका का प्रयोग करते हुए समस्या को पहचानें और सुलझाएं। अन्य जानकारी के लिए, **उपयोगकर्ता गाइड** देखें।


: flashing / चमकना

: on / ऑन


	The paper is jammed in the rear paper feed. See the "Clearing Paper Jam" section to remove paper and resume printing. रीयर पेपर फीड में पेपर जाम है। पेपर को निकालने और प्रिंटिंग शुरू करने के लिए "पेपर जाम क्लियर करना" खंड को देखें।
	No paper is loaded, or multiple sheets were fed at the same time. Load paper in the rear paper feed correctly and press ⓪ or Ⓛ . कोई पेपर लोड नहीं है, या एक ही समय पर कई कागज फंस गए हैं। पीछे के पेपर फीड में पेपर को सही तरीके से लोड करें और ⓪ या Ⓛ दबाएं।
	Initial ink charging may not be complete. Follow steps 2 to 4 in section 3 of the front page to complete initial ink charging. आरंभिक इंक चार्जिंग संभवतः पूर्ण नहीं है। आरंभिक इंक चार्जिंग को पूरा करने के लिए सामने के पृष्ठ के खंड 3 में चरण 2 से 4 तक का अनुसरण करें।

Transporting / परिवहन

1 Secure print head with a tape.
प्रिंट हेड को एक टेप से सुरक्षित करें।



2 Close securely.
सुरक्षित रूप से बंद कर दें।



3 Make sure to hook on.
सुरक्षित कर लें कि हुक बंद है।



4 Pack the printer with protective materials to prevent the ink tank unit from being unhooked.
टैंक यूनिट को अनहक होने से बचाने के लिए प्रिंटर को सुरक्षा आवरणों के साथ पैक करें।

1 Do not put ink bottles.
इंक की बोतलें न डालें।

2 Keep the printer level as you transport it. Otherwise, ink may leak. As you transport the ink bottle, be sure to keep it upright when tightening the cap, and take measures to prevent ink from leaking.
प्रिंटर को ले जाते समय इसे सीधा रखें। अन्यथा, इंक लीक हो सकती है। जैसे आप इंक बोतल ले जा रहे हों, तो ढक्कन बंद करते समय सुनिश्चित करें कि बोतल सीधी अवस्था में है, और इंक की लीकेज से बचने के उपाय अपनाएं।

3 After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.
पहंचने के बाद, प्रिंट हेड की सुरक्षा के लिए लगे टेप को हटा दें। अगर आप प्रिंट गुणवत्ता में कमी पा रहे हों, तो एक बार क्लीनिंग करें या प्रिंट हेड को संरेखित करें।

Safety Instructions / सुरक्षा निर्देश

1 Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
केवल प्रिंटर के साथ मिले पावर तार का प्रयोग करें। किसी अन्य तार का प्रयोग आग या विद्युत शॉक का कारण बन सकता है। किसी अन्य उपकरण के साथ तार का प्रयोग न करें।

2 Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.
सुनिश्चित करें कि आपका विद्युत पावर तार स्थानीय सुरक्षा मानकों पर उचित है।

3 Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
आपके कागजों में विशेष रूप से दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त, प्रिंटर में किसी भी तरह की सर्विस स्वयं न करें।

4 Do not let the power cord become damaged or frayed.
पावर तार को खराब या कटा-फटा न होने दें।

5 Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.
प्रिंटर को वॉल आउटलेट के पास रखें जहाँ पावर तार को आसानी से निकाला जा सके।

6 Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.
उत्पाद को बाहर खुले में, गंदी धूल भरी जगहों, पानी, गर्म स्थानों के नजदीक या विद्युत शॉक, कंपनों, उच्च तापमानों या नमी वाले स्थानों पर न रखें।

7 Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.
ध्यान रखें कि उत्पाद पर न तो कोई तरल पदार्थ गिरे और न ही इसे गीले हाथों से उठाएं।

8 Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.
इस उत्पाद को हृदय रोगियों के पेसमेकर से करीब 22 मीटर दूर रखें। इस उत्पाद से निकलने वाली रेडियो तरंग हृदय रोगियों के पेसमेकर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

9 Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.
इंक बोतलों और इंक टैंक यूनिट को बच्चों की पहुँच से दूर रखें और इंक को पीएँ नहीं।

10 Do not tilt or shake an ink bottle after removing its seal; this can cause leakage.
सील निकालने के बाद इंक बोतल को हिलाएं-डुलाएँ नहीं, ऐसा करने से इंक लीक हो सकती है।

11 Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.
इसका ध्यान रखें कि इंक की बोतलें सीधी अवस्था में हैं और झटकों या तापमान बदलाव से सुरक्षित हैं।

12 If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.
अगर इंक आपकी त्वचा पर गिर जाती है, तो इसे अच्छी तरह से साबुन व पानी से धोएं। अगर इंक आपकी आंखों में चली जाती है, तो उन्हें तुरंत ही पानी से धो लें। अगर अच्छी तरह से साफ करने के बाद भी आपको परेशानी या दृष्टि समस्या आ रही हो, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। यदि इंक आपके मुँह में चली जाती है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलें।

Ink Bottles / इंक की बोतलें

BK	C	M	Y
664	664	664	664

1 Use of genuine Epson ink other than specified could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
Epson की वास्तविक इंक के अतिरिक्त किसी अन्य इंक का प्रयोग नुकसान कर सकता है, जो Epson वारंटी में ग्राह्य नहीं होगा।

Questions?



You can open the *User's Guide* (PDF) from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website.
आप शॉर्टकट आइकन से **उपयोगकर्ता गाइड** (PDF) खोल सकते हैं या निम्न वेबसाइट से नवीनतम संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

<http://support.epson.net/>

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a trademark of Google Inc.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

